



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूर्क

खंड 30

18 सितम्बर, 2015

संख्या 38

## 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2014       | 2015       |            | घट – बढ़ |          |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|                                         | 12 सितम्बर | 04 सितम्बर | 11 सितम्बर | सप्ताह   | वर्ष     |
|                                         | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        |
| 1 जारी नोट                              | 13,342.45  | 14,694.32  | 14,786.82  | 92.50    | 1,444.37 |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 13,342.31  | 14,694.16  | 14,786.70  | 92.54    | 1,444.39 |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.14       | 0.16       | 0.12       | -0.04    | -0.02    |
| 2 जमा राशियां                           |            |            |            |          |          |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.00       | 1.00       | 1.01       | —        | 0.01     |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —          | —          | —          | —        | —        |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 0.42       | 0.42       | 0.42       | —        | —        |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,351.28   | 3,671.27   | 3,608.07   | -63.20   | 256.79   |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 34.04      | 32.81      | 31.69      | -1.11    | -2.34    |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 177.82     | 206.90     | 204.76     | -2.14    | 26.94    |
| 2.7 अन्य                                | 299.82     | 1,312.01   | 990.59     | -321.42  | 690.76   |
| 3 अन्य देयताएं                          | 8,266.36   | 9,130.37   | 9,258.58   | 128.21   | 992.22   |
| कुल देयताएं / आस्तियां                  | 25,473.19  | 29,049.10  | 28,881.94  | -167.16  | 3,408.75 |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 17,739.14  | 21,859.71  | 22,009.44  | 149.73   | 4,270.30 |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,265.92   | 1,195.85   | 1,195.85   | -        | -70.07   |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 5,652.01   | 5,251.93   | 5,232.26   | -19.68   | -419.75  |
| 4 ऋण और अग्रिम                          |            |            |            |          |          |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —          | 359.27     | —          | -359.27  | —        |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 5.06       | 23.21      | 17.32      | -5.89    | 12.26    |
| 4.3 नाबार्ड                             | -          | —          | —          | —        | —        |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 529.36     | 93.84      | 160.67     | 66.83    | -368.69  |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 0.35       | 0.35       | 0.35       | —        | —        |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —          | —          | —          | —        | —        |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —          | —          | —          | —        | —        |
| 4.8 अन्य                                | 48.83      | 35.25      | 45.70      | 10.45    | -3.13    |
| 5 खरीदे और भुनाए गए बिल                 |            |            |            |          |          |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —          | —          | —          | —        | —        |
| 5.2 खज़ाना                              | —          | —          | —          | —        | —        |
| 6 निवेश                                 | 13.20      | 13.20      | 13.20      | —        | —        |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 219.32     | 216.49     | 207.17     | -9.32    | -12.15   |

## 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 11 सितम्बर, 2015 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |                |                          |                |                |                 |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                                           |                     |                  | सप्ताह                     |                | मार्च 2015 की समाप्ति पर |                | वर्ष           |                 |
|                                           | ₹ बिलियन            | मिलि.अम. डॉलर    | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर  | ₹ बिलियन       | मिलि.अम. डॉलर   |
|                                           | 1                   | 2                | 3                          | 4              | 5                        | 6              | 7              | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>23,220.5</b>     | <b>351,389.5</b> | <b>152.4</b>               | <b>2,358.8</b> | <b>1,844.1</b>           | <b>9,751.1</b> | <b>3,970.7</b> | <b>35,691.7</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 21,667.1            | 327,967.7        | 149.3                      | 2,311.1        | 1,812.5                  | 10,644.2       | 4,048.2        | 39,202.9        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,195.8             | 18,035.3         | —                          | —              | 4.2                      | -1,002.7       | -70.1          | -2,897.8        |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 270.1               | 4,068.0          | 1.2                        | 18.7           | 20.7                     | 82.8           | 6.5            | -265.0          |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 87.5                | 1,318.5          | 1.9                        | 29.0           | 6.7                      | 26.8           | -13.9          | -348.4          |

## 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 18 सितम्बर 2015 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3,646.8 बिलियन | 2015      |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                             | 5 सितम्बर | 6 सितम्बर | 7 सितम्बर | 8 सितम्बर | 9 सितम्बर | 10 सितम्बर | 11 सितम्बर | 12 सितम्बर | 13 सितम्बर | 14 सितम्बर | 15 सितम्बर | 16 सितम्बर | 17 सितम्बर | 18 सितम्बर |
|                                                                                                             | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                                | 3,655.7   | 3,655.7   | 3,661.7   | 3,626.7   | 3,697.3   | 3,754.3    | 3,608.2    |            |            |            |            |            |            |            |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                           | 100.2     | 100.2     | 100.4     | 99.4      | 101.3     | 102.9      | 98.9       |            |            |            |            |            |            |            |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 4 सितम्बर 2015 को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                      |                 |                |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                |                         | परखवाड़ा                  | वित्त वर्ष में अब तक |                 | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                                |                         |                           | 2014-2015            | 2015-2016       | 2014           | 2015           |
|                                                |                         |                           | 3                    | 4               | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                         |                           |                      |                 |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 1,267.5                 | -24.7                     | 239.6                | 165.6           | 327.8          | 250.7          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 470.4                   | 22.8                      | -36.5                | 72.3            | 27.0           | 157.3          |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 68.1                    | -3.9                      | -82.8                | 6.7             | -26.7          | 15.9           |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                         |                           |                      |                 |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 90,280.5                | 683.5                     | 3,845.0              | 4,947.7         | 9,422.8        | 9,379.9        |
| 2.1.1 मांग                                     | 8,232.0                 | 89.4                      | 223.8                | 291.7           | 855.9          | 869.1          |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 82,048.5                | 594.1                     | 3,621.2              | 4,656.0         | 8,566.9        | 8,510.9        |
| 2.2 उधारियां                                   | 2,380.2                 | -31.4                     | -285.7               | 121.5           | -740.3         | 455.5          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,680.8                 | 264.5                     | 124.7                | 108.8           | 250.6          | 172.9          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधारियां</b>              | <b>93.8</b>             | <b>-156.0</b>             | <b>-88.9</b>         | <b>-1,488.2</b> | <b>-37.6</b>   | <b>-233.3</b>  |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>4,264.2</b>          | <b>10.4</b>               | <b>196.3</b>         | <b>-0.1</b>     | <b>96.2</b>    | <b>445.8</b>   |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 593.0                   | 28.0                      | 35.5                 | 59.4            | 77.1           | 98.7           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 3,671.3                 | -17.7                     | 160.7                | -59.5           | 19.1           | 347.1          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                         |                           |                      |                 |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,772.1                 | 35.9                      | 10.3                 | 398.0           | 146.3          | 699.5          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 207.7                   | 11.5                      | -94.6                | -18.2           | 26.2           | 24.3           |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 232.8                   | 1.9                       | 27.6                 | 43.6            | 62.4           | 37.8           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 370.4                   | 30.1                      | -205.8               | -58.2           | -301.7         | 133.4          |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>26,974.1</b>         | <b>135.3</b>              | <b>2,035.7</b>       | <b>2,055.8</b>  | <b>2,759.8</b> | <b>2,810.2</b> |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                         | 0.5                       | 9.2                  | 8.3             | 12.9           | 11.6           |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 26,951.7                | 135.2                     | 2,035.1              | 2,054.2         | 2,764.8        | 2,804.7        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 22.4                    | 0.1                       | 0.6                  | 1.6             | -5.1           | 5.5            |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>67,002.5</b>         | <b>340.0</b>              | <b>1,182.7</b>       | <b>1,638.3</b>  | <b>5,135.7</b> | <b>5,878.9</b> |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                         | 0.5                       | 2.0                  | 2.5             | 9.2            | 9.6            |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                 | 1,007.1                 | -19.8                     | 59.1                 | 62.9            | 29.3           | -36.5          |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                              | 65,995.4                | 359.7                     | 1,123.6              | 1,575.4         | 5,106.4        | 5,915.4        |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                | 64,813.3                | 334.8                     | 1,277.3              | 1,689.4         | 5,043.4        | 5,845.3        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 348.5                   | -0.5                      | -60.3                | 4.4             | 32.2           | 24.4           |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                 | 1,200.1                 | 10.8                      | 37.6                 | 0.1             | 95.3           | 56.6           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 220.2                   | -1.7                      | -22.0                | -21.0           | -1.0           | -20.7          |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                 | 420.5                   | -3.5                      | -50.0                | -34.7           | -34.3          | -26.6          |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2014        | 2015       |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                     | 12 सितम्बर  | 14 अगस्त   | 21 अगस्त   | 28 अगस्त   | 4 सितम्बर  | 11 सितम्बर |
|                                                     | 1           | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          |
| <b>अनुपात</b>                                       |             |            |            |            |            |            |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.00        | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 22.00       | 21.50      | 21.50      | 21.50      | 21.50      | 21.50      |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | ..          | ..         | 4.75       | ..         | 4.72       | ..         |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | ..          | ..         | 74.40      | ..         | 74.22      | ..         |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | ..          | ..         | 30.45      | ..         | 33.11      | ..         |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | ..          | ..         | 29.95      | ..         | 29.88      | ..         |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | ..          | ..         | 45.04      | ..         | 41.55      | ..         |
| <b>दरें</b>                                         |             |            |            |            |            |            |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 8.00        | 7.25       | 7.25       | 7.25       | 7.25       | 7.25       |
| रिवर्स रिपो दर                                      | 7.00        | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.25       | 6.25       |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 9.00        | 8.25       | 8.25       | 8.25       | 8.25       | 8.25       |
| बैंक दर                                             | 9.00        | 8.25       | 8.25       | 8.25       | 8.25       | 8.25       |
| आधार दर                                             | 10.00/10.25 | 9.70/10.00 | 9.70/10.00 | 9.70/10.00 | 9.70/10.00 | 9.70/10.00 |
| सावधी जमा दर > 1 वर्ष                               | 8.00/9.05   | 7.50/8.25  | 7.25/8.25  | 7.25/8.00  | 7.25/8.00  | 7.25/8.00  |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00        | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 4.00       |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 7.82        | 7.09       | 7.11       | 7.03       | 7.07       | 7.17       |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 8.60        | 7.27       | 7.44       | 7.44       | 7.44       | 7.44       |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 8.71        | 7.51       | ..         | 7.49       | ..         | 7.49       |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..          | ..         | 7.54       | ..         | 7.50       | ..         |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 8.51        | 7.75       | 7.79       | 7.78       | 7.75       | 7.77       |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिआ</b>        |             |            |            |            |            |            |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 60.84       | 65.12      | 65.83      | 66.08      | 66.40      | 66.39      |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 78.64       | 72.56      | 74.27      | 74.37      | 73.89      | 74.90      |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह               | 8.38        | 7.46       | 7.75       | 6.81       | 6.69       | 6.69       |
| 3-माह                                               | 8.51        | 6.85       | 7.05       | 6.72       | 6.63       | 6.60       |
| 6-माह                                               | 8.45        | 6.93       | 6.84       | 6.64       | 6.54       | 6.45       |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |           | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |       |           |      |              |       |          |       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|------|----------------------|-------|-----------|------|--------------|-------|----------|-------|
|                                                    | 2015           |           | पखवाड़ा                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |      | वर्ष-दर-वर्ष |       |          |       |
|                                                    |                |           |                            |      | 2014-2015            |       | 2015-2016 |      | 2014         |       | 2015     |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 4 सितम्बर | राशि                       | %    | राशि                 | %     | राशि      | %    | राशि         | %     | राशि     | %     |
|                                                    | 1              | 2         | 3                          | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8    | 9            | 10    | 11       | 12    |
| एम <sub>3</sub>                                    | 105,455.5      | 110,835.6 | 696.9                      | 0.6  | 4,510.6              | 4.7   | 5,380.1   | 5.1  | 11,465.7     | 13.0  | 11,151.2 | 11.2  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                            |                |           |                            |      |                      |       |           |      |              |       |          |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 13,863.5       | 14,214.6  | 3.1                        | —    | 453.9                | 3.6   | 351.1     | 2.5  | 1,269.4      | 10.9  | 1,302.6  | 10.1  |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 8,907.5        | 9,219.8   | 88.7                       | 1.0  | 164.3                | 2.0   | 312.3     | 3.5  | 926.5        | 12.6  | 935.7    | 11.3  |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 82,538.7       | 87,246.0  | 601.1                      | 0.7  | 3,843.2              | 5.2   | 4,707.3   | 5.7  | 9,246.1      | 13.4  | 8,826.6  | 11.3  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि             | 145.9          | 155.2     | 3.9                        | 2.6  | 49.3                 | 250.7 | 9.3       | 6.4  | 23.7         | 52.4  | 86.3     | 125.3 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                      |                |           |                            |      |                      |       |           |      |              |       |          |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 30,061.6       | 34,118.3  | 1,060.7                    | 3.2  | 1,025.2              | 3.4   | 4,056.7   | 13.5 | 1,962.3      | 6.6   | 2,644.4  | 8.4   |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 3,645.2        | 5,634.4   | 921.0                      | —    | —1,105.8             | —     | 1,989.2   | —    | —975.1       | —     | —246.9   | —     |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 26,416.3       | 28,483.9  | 139.6                      | 0.5  | 2,130.9              | 9.1   | 2,067.5   | 7.8  | 2,937.3      | 13.0  | 2,891.3  | 11.3  |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 70,395.8       | 71,868.0  | 315.1                      | 0.4  | 1,293.4              | 2.0   | 1,472.2   | 2.1  | 5,452.9      | 9.0   | 6,121.6  | 9.3   |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 148.5          | 48.3      | —6.9                       | —    | —29.7                | —     | —100.2    | —    | 20.9         | —     | —10.4    | —     |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 70,247.4       | 71,819.7  | 322.0                      | 0.5  | 1,323.1              | 2.1   | 1,572.4   | 2.2  | 5,432.0      | 9.0   | 6,132.1  | 9.3   |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 22,506.5       | 24,289.0  | —126.5                     | —0.5 | 751.1                | 3.9   | 1,782.5   | 7.9  | 1,998.5      | 11.1  | 4,298.3  | 21.5  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 194.3          | 199.9     | —                          | —    | 9.3                  | 5.3   | 5.7       | 2.9  | 20.3         | 12.5  | 17.3     | 9.5   |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 17,702.7       | 19,639.5  | 552.4                      | 2.9  | —1,431.7             | —7.5  | 1,936.8   | 10.9 | —2,031.7     | —10.3 | 1,930.5  | 10.9  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं        | 7,852.7        | 8,956.5   | —40.2                      | —0.4 | —247.0               | —2.9  | 1,103.7   | 14.1 | —1,360.6     | —14.3 | 770.2    | 9.4   |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |            | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |       |          |       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|----------|-------|
|                                                                  | 2015           |            | सप्ताह                     |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |       |          |       |
|                                                                  |                |            |                            |      | 2014-2015            |       | 2015-2016 |       | 2014         |       | 2015     |       |
|                                                                  | 31 मार्च       | 11 सितम्बर | राशि                       | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %     | राशि     | %     |
|                                                                  | 1              | 2          | 3                          | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10    | 11       | 12    |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 19,284.6       | 18,986.2   | 25.8                       | 0.1  | —164.7               | —1.0  | —298.4    | —1.5  | 1,144.8      | 7.1   | 1,823.5  | 10.6  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |            |                            |      |                      |       |           |       |              |       |          |       |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 14,483.1       | 14,986.6   | 92.5                       | 0.6  | 514.2                | 4.0   | 503.5     | 3.5   | 1,302.0      | 10.7  | 1,461.7  | 10.8  |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि                          | 4,655.6        | 3,844.5    | —66.5                      | —1.7 | —733.9               | —17.1 | —811.1    | —17.4 | —187.4       | —5.0  | 281.4    | 7.9   |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 145.9          | 155.0      | —0.2                       | —0.1 | 54.9                 | 279.5 | 9.1       | 6.3   | 30.2         | 67.9  | 80.4     | 107.9 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)                                    |                |            |                            |      |                      |       |           |       |              |       |          |       |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 3,645.2        | 5,151.1    | —483.4                     | —    | —1,330.0             | —     | 1,505.8   | —     | —1,585.2     | —     | —506.0   | —     |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 3,610.4        | 5,134.2    | —477.5                     | —    | —1,324.0             | —     | 1,523.8   | —     | —1,588.5     | —     | —518.3   | —     |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 2,025.0        | —474.4     | 498.4                      | —    | —40.7                | —     | —2,499.5  | —     | 66.8         | —     | —1,008.7 | —     |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | 1,876.6        | —533.1     | 487.9                      | —    | —13.9                | —     | —2,409.7  | —     | 43.0         | —     | —1,005.8 | —     |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 21,272.8       | 23,205.0   | 149.7                      | 0.6  | 979.5                | 5.4   | 1,932.2   | 9.1   | 1,721.3      | 10.0  | 4,200.3  | 22.1  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 194.3          | 199.9      | —                          | —    | 9.3                  | 5.3   | 5.7       | 2.9   | 20.3         | 12.5  | 17.3     | 9.5   |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 7,852.7        | 9,095.4    | 138.9                      | 1.6  | —217.2               | —2.6  | 1,242.6   | 15.8  | —921.6       | —10.1 | 879.4    | 10.7  |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक          | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                     |                            | एमएसएफ | स्थायी<br>चलनिधि<br>सुविधा | ओएमओ<br>(एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+8-2-4-7) |
|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------|
|                 | रिपो                  | रिवर्स रिपो | परिवर्तनशील रिपो दर | परिवर्तनशील रिवर्स रिपो दर |        |                            | विक्रय            | क्रय |                                                         |
|                 | 1                     | 2           | 3                   | 4                          |        |                            |                   |      |                                                         |
| 7 सितम्बर 2015  | 22.46                 | 41.66       | —                   | 144.91                     | 2.29   | —                          | 4.30              | —    | -166.12                                                 |
| 8 सितम्बर 2015  | 29.07                 | 32.35       | 10.75               | —                          | 15.65  | 3.50                       | 6.15              | —    | 20.47                                                   |
| 9 सितम्बर 2015  | 177.69                | 44.60       | —                   | —                          | 0.30   | —                          | 8.95              | —    | 124.44                                                  |
| 10 सितम्बर 2015 | 193.00                | 84.43       | —                   | —                          | —      | —                          | 1.15              | —    | 107.42                                                  |
| 11 सितम्बर 2015 | 53.17                 | 23.90       | 64.80               | 131.86                     | 19.33  | —                          | —                 | —    | -18.46                                                  |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                           | 2014  |       | 2015  |       | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |       |        |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|--------|
|                                                              | जुलाई | अगस्त | जुलाई | अगस्त | माह                                | मार्च | वर्ष   |
|                                                              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5                                  | 6     | 7      |
| 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)                          | 119.2 | 120.3 | 123.6 | 124.7 | 0.9                                | 3.7   | 3.7    |
| 1.1 ग्रामीण                                                  | 119.5 | 120.7 | 124.7 | 126.1 | 1.1                                | 4.1   | 4.5    |
| 1.2 शहरी                                                     | 118.9 | 119.9 | 122.4 | 123.1 | 0.6                                | 3.4   | 2.7    |
| 2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) | 252.0 | 253.0 | 263.0 | ..    | ..                                 | ..    | ..     |
| 3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)                            | 185.0 | 185.9 | 177.5 | 176.7 | - 0.5                              | 0.3   | - 4.9  |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                         | 256.6 | 261.2 | 247.2 | 251.5 | 1.7                                | 5.2   | - 3.7  |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                            | 214.6 | 214.0 | 187.1 | 178.7 | - 4.5                              | - 4.9 | - 16.5 |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                         | 156.0 | 156.1 | 153.7 | 153.1 | - 0.4                              | - 0.5 | - 1.9  |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                     |
| 7 अगस्त 2015   | 2,050.2                  | 103.1                   | 7.25 - 8.05           |
| 21 अगस्त 2015  | 2,065.3                  | 260.0                   | 7.29 - 7.95           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                     |
| 15 अगस्त 2015  | 3,232.6                  | 678.8                   | 7.09 - 12.24          |
| 31 अगस्त 2015  | 3,094.6                  | 599.5                   | 7.33 - 12.29          |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह   |                 |                |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                          | 12 सितम्बर 2014 | 04 सितम्बर 2014 | 11 सितंबर 2015 |
|                          | 1               | 2               | 3              |
| 1 मांग मुद्रा            | 162.6           | 204.5           | 259.1          |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 52.3            | 87.7            | 4.6            |
| 3 सीबीएलओ                | 1,327.9         | 1,244.2         | 1,400.9        |
| 4 बाजार रिपो             | 1,152.4         | 1,199.8         | 992.5          |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रिपो | 3.0             | 0.4             | 0.8            |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 11 सितम्बर 2015 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|--------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                    | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                    | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय          | —           | —                 | 648.7         | 663.1   |
| 91-दिवसीय          | 397.5       | 241.0             | 512.1         | 1,712.2 |
| 182-दिवसीय         | 341.2       | 305.5             | 70.1          | 830.6   |
| 364-दिवसीय         | 399.7       | 631.4             | 23.2          | 1,480.5 |
| सीएमबी             | —           | —                 | —             | —       |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि               |                                 |         | जुटाई गई निवल राशि              |                                 |         |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
|                  | 2015-16<br>(11 सितम्बर 2015 तक) | 2014-15<br>(12 सितम्बर 2014 तक) | 2014-15 | 2015-16<br>(11 सितम्बर 2015 तक) | 2014-15<br>(12 सितम्बर 2014 तक) | 2014-15 |
|                  | 1                               | 2                               | 3       | 4                               | 5                               | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 3,230.0                         | 3,280.0                         | 5,920.0 | 1,860.7                         | 2,528.9                         | 4,532.0 |
| 2. राज्य सरकारें | 1,026.8                         | 824.8                           | 2,408.4 | 841.9                           | 656.3                           | 2,074.6 |

wss के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां wss हस्तपुस्तिका [www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है। समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री संजय कुमार हॉसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।